

## प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल दिनांक 15.07.2021

### 01 नफर शातिर चोर 01 अदद स्कूटी चोरी के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में अपराधों पर रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक जगत नारायण सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर मय उ0नि0 विशाल कुमार उपाध्याय व उ0नि0 अक्षय कुमार मिश्रा मय टीम को अंकुश लगाने एवं पर्दाफाश हेतु लगाया था। टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि एक व्यक्ति चोरी की स्कूटी लेकर अभी पैडलेगंज की तरफ से आने वाला है। इस सूचना पर विश्वास कर हम पुलिसवाले नहर रोड पर पहुँचकर आने वाले व्यक्ति का इंतजार करने लगे कि कुछ ही समय पश्चात् एक व्यक्ति स्कूटी से आता दिखाई दिया कि मुखबिर खास आते हुये व्यक्ति की तरफ इशारा करके हट – बढ गया। हम पुलिस कर्मियों द्वारा आ रहे स्कूटी चालक को घेर घारकर मौके पर ही पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रामसजन उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र बासदेव निवासी रानीबाग पथरा थाना- रामगढ़ताल, जिला- गोरखपुर बताया जिससे स्कूटी के बारे मे पूछा गया तो बता रहा है कि साहब यह स्कूटी चोरी की है। स्कूटी को चेक किया गया तो स्कूटी का रजि0 नं0 UP53CA4208 रंग ग्रे, चेचिस नं0 – ME4JF506MF7009543, इंजन नं0- JF50E74009453 पाया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 271/2021 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए आज दिनांक 15.07.2021 को समय 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रामसजन पुत्र बासदेव निवासी रानीबाग पथरा थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

#### आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 271/2021 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना रामगढ़ताल, गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 260/2018 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना खोराबार, गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 200/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना रामगढ़ताल, गोरखपुर।

#### बरामदगी का विवरण

एक अदद स्कूटी नं0 UP53CA4208 रंग ग्रे चेचिस नं0 – ME4JF506MF7009543 इंजन नं0- JF50E74009453

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 श्री विशाल कुमार उपाध्याय चौकी प्रभारी आजाद चौक, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर।
3. उ0नि0 श्री अक्षय कुमार मिश्रा, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर।
4. हे0का0 ओमप्रकाश सिंह, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर।
5. का0 अंकित यादव, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर।